

## Annexure-I for Configuration1 – 4 Nos

<b>Feature</b>	<b>Description</b>
Processor (CPUs)	2xIntel Xeon 63xx Series or latest 24-core or higher 2.6Ghz or higher processor
Type	Rack mountable
Memory	Minimum 512 GB DDR4 (16 * 32GB modules) expandable to 1TB RAM without replacing the existing modules
Power Supply & Fans	Redundant and Hot Pluggable Fans and Power supplies.
Internal Disk Drives	1. 480GB of usable capacity for OS in RAID1 configuration using 12G interface SSDs. 2. Minimum 15TB or higher usable capacity using NLSAS disks in RAID5 configuration.
Disk Controller	12 Gbps SAS Raid Controller with minimum 2 GB FBWC or battery backed write cache onboard or in a PCI Express slot. RAID controller should support RAID 0, 1, 5 and 6.
FC HBA ports (if required)	2 no. of 16 Gbps or better
Network ports	2 no. of 10Gbps & 2 no. of 1 Gbps
Expansion Slots	Server should have minimum one free PCI-Express slot after populating the modules to meet the specifications.
System Management	1. Software should support to dashboard view to quickly scan and assess the overall health 2. Software should support search for resource-specific information such as resource names, serial numbers, WWNs, IP and MAC addresses. 3. Server should support agentless management using the out-of-band remote management port.
OS Support	Should support ESXi 8 and above / RHEL 8 and latest /Windows server 2022 and latest
OS	Should be provided with vmware ESXI hypervisor 8.x or latest with 5 years subscription/perpetual
<b>Warranty</b>	<b>3 years</b>
Manufacture authorisation certificate to be provided against this tender enquiry	
Failed Hard disk will not be returned if disk fails during warranty period	
System should be supplied with necessary rack-mounting installation kits and power cables	
Datasheet of the proposed server along with BOM is to be submitted by vendor	
Make and Model offered should be listed in VMware Certified Compatible list	

## Annexure-II for Configuration2 - 3 Nos

<b>Feature</b>	<b>Description</b>
Processor (CPUs)	2xIntel Xeon 63xx Series or latest, 16-core or latest, 2.8Ghz or higher processor
Type	Rack mountable
Memory	Minimum 512 GB DDR4 (16 * 32GB modules) expandable to 1TB RAM without replacing the existing modules
Power Supply & Fans	Redundant and Hot Pluggable Fans and Power supplies.
Internal Disk Drives	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 480GB of usable capacity for OS in RAID1 configuration using 12G interface SSDs</li> <li>2. 4TB or higher usable capacity using 12G interface SSDs in RAID6 configuration and one hot-spare disk to be provided</li> </ol>
Disk Controller	12 Gbps SAS Raid Controller with minimum 2 GB FBWC or battery backed write cache onboard or in a PCI Express slot. RAID controller should support RAID 0, 1, 5 and 6.
Network ports	2 no. of 10Gbps & 2 no. of 1 Gbps
Expansion Slots	Server should have minimum one free PCI-Express slot after populating the modules to meet the specifications.
System Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Software should support to dashboard view to quickly scan and assess the overall health</li> <li>2. Software should support search for resource-specific information such as resource names, serial numbers, WWNs, IP and MAC addresses.</li> <li>3. Server should support agentless management using the out-of-band remote management port.</li> </ol>
OS Support	Should support ESXi 8 and above / RHEL 8 and latest /Windows server 2022 and latest
OS	To be offered with latest version of RHEL 9.0 or latest with 3 years subscription
<b>Warranty</b>	<b>3 years</b>
Manufacture authorisation certificate to be provided against this tender enquiry	
Failed Hard disk will not be returned if disk fails during warranty period	
System should be supplied with necessary rack-mounting installation kits and power cables	
Datasheet of the proposed server along with BOM is to be submitted by vendor	

**अनुलग्नक- Annexure-III**

**वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें**  
Commercial Terms and Conditions

क्र. सं. S.no.	विवरण Description	अनुपालन (हां/नहीं) टिप्पणी, यदि कोई हो Compliance (Yes/No) Remarks, if any
1	कर और अन्य लागत, यदि कोई हो: (कृपया मूल्य बोलों में शामिल कर दर कोट करें) Taxes and other costs, if any: (Please quote the rate of tax included in price bid)	
2	Delivery Term: FOR NRSC, Balanagar, Hyderabad.	
3	<b>ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र:</b> निविदा के हिस्से के रूप में निविदा विशेष ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें सभी संविदात्मक दायित्वों की अवधि शामिल होगी। <b>OEM Authorization Certificate:</b> Tender specific OEM Authorization Certificate to be submitted as part of tender, covering the duration of all the contractual obligations.	
4	<b>सुपुर्दगी एवं स्थापना अवधि</b> Delivery & Installation Period a. जेम (GeM) में पीओ दाखिल होने की तारीख से सुपुर्दगी _____ पूरी की जाएगी Delivery shall be completed <b>04 weeks</b> from the date of placement of PO in GEM. b. .... तारीख से ..... में स्थापना एवं चालू किया जाएगा Installation & commissioning shall be completed <b>within 02 weeks from the date of delivery.</b>	
5	<b>Payment term:</b> 90% payment will be made within 30 days from the date of receipt, installation and acceptance of the items by NRSC and generation of CRAC on GEM Portal and balance/remaining 10% payment after completion of warranty period of three (03) years.	
6	<b>वारंटी:</b> एनआरएससी द्वारा वस्तुओं की स्थापना और स्वीकृति की तारीख से ___ वारंटी प्रमाणपत्र विधिवत मुद्रांकित और हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाएगा। <b>Warranty:</b> warranty <b>Three (03) years</b> from the date of installation & acceptance of the items by NRSC. Warranty certificate duly stamped and signed shall be submitted.	
7	<b>क्षतिकरण:</b> सुपुर्दगी और स्थापना इस आदेश के मूल में है। आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश के कुल प्रयोजन का निष्पादित करेगा, अर्थात्, क्रय आदेश में दर्शाए गए सुपुर्दगी कार्यक्रम के तहत आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग कार्य का पूरा किया जाए। यदि आपूर्तिकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति और स्थापना की विलंबित अवधि के लिए ऑर्डर मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन, प्रति सप्ताह 0.5% या उसके भाग पर क्षतिकरण हर्जाना लगाया जाएगा। <b>Liquidated Damages:</b> Since delivery & installation is the essence of this order, the	

	supplier shall execute the total scope of purchase order, i.e., supply, installation & commissioning /total scope of work within the delivery schedule indicated in the Purchase Order. In case, if the supplier fails to do so, Liquidated Damages <b>shall be levied @ 0.5% per week</b> or part thereof subject to a <b>maximum of 10% of the order value</b> for the delayed period of supply & installation.	
8	<p><b>बैंक गारंटी Bank Guarantee:</b>  <b>ऑर्डर मूल्य के 3% के लिए SD सह PBG/e-PBG के लिए बैंक गारंटी ऑर्डर की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर</b> जमा की जाएगी, जो किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (100 रुपये) पर सुपुर्दगी, स्वीकृति + वारंटी अवधि, यानी, _____ (___ महीने) के पूरा होने तक वैध होगी, इसे क्रय आदेश के संतोषजनक निष्पादन और मानक वारंटी दायित्वों के पूरा होने पर एनआरएससी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यदि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति और मानक वारंटी दायित्वों को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो इस BG को बिना किसी अन्य संदर्भ के जब्त कर लिया जाएगा।</p> <p>Bank Guarantee for SD cum PBG/e-PBG for <u>3% of the order value</u> shall be submitted within 15 days of receipt of order valid till the completion of Delivery, acceptance + warranty period, i.e., <b>06 weeks plus three years plus two months (40 months)</b> on Rs.100/- non-judicial stamp paper from a Nationalized / Scheduled Bank. This shall be returned by NRSC on execution of the purchase order satisfactorily &amp; completion of standard warranty obligations. If the supplier fails to execute the supply &amp; standard warranty obligations, then this BG shall be forfeited without any further reference.</p>	
9	<p><b>फर्मों को बोलों लगाने से प्रतिबंधित करने पर दिशानिर्देश:</b> विक्रेता नियम संख्या 151 और GFR (सामान्य वित्तीय नियम) की धारा 175 (अखंडता संहिता) के अनुरूप व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/20/2018-पीपीडी दिनांक 02.11.2021 के माध्यम से फर्मों को प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देशों को नोट करें। बोलियां जमा करने पर, यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने निष्कासन दिशानिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।</p> <p><b>Guidelines on Debarment</b> of firms from Bidding: Vendors may note the Guidelines on Debarment of Firms vide O.M No. F.1/20/2018-PPD dated 02.11.2021 issued by Department of Expenditure in line with rule no.151 &amp; 175 (Code of Integrity) of GFR (General Financial Rules). On submission of bids, it is presumed that bidders have read and understood the Debarment guidelines.</p>	
10	<p><b>एमएसई:</b> कृपया नोडेट कर कि क्या आप MSE हैं। यदि हां, तो कृपया अपने प्रस्ताव के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें। विक्रेता कृपया ध्यान दें कि MSEs को सुरक्षा जमा, प्रेषित करने से छूट नहीं है</p> <p><b>MSE:</b> Please specify whether you are a MSE. If so, please furnish the documentary evidence along with your offer. Vendors may please note that MSEs are not exempted from the submission of Security deposit.</p>	
11	<p><b>एसएसडी/एचडीडी क्लॉज:</b> वारंटी अवधि के दौरान खराब होने पर कोई भी हार्ड डिस्क/एसएसडी को एनआरएससी नियमों के अनुसार वापस नहीं किया जाएगा और उसे एनआरएससी को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुफ्त में बदलना होगा।</p> <p><b>SSD/HDD Clause:</b> Any Hard Disk/SSD failed during warranty period will not be returned as per NRSC rules and same has to be replaced free of cost without any extra charge to NRSC.</p>	
12	<p><b>PFMS</b> में पंजीकरण करने में हमें सुविधा प्रदान करने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। भुगतान करने के लिए यह अनिवार्य है:</p> <p>Please provide the following details in order to facilitate us to register in PFMS. This is mandatory for making payment:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) बैंक खाता संख्या Bank Account Number</li> <li>2) आईएफएससी कोड IFSC Code</li> </ol>	

	<p>3) पैन नंबर PAN No.  4) जीएसटी पंजीकरण संख्या और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति  GST Registration No. and copy of GST registration certificate  5) मोबाइल नंबर Mobile Nos.1) _____ 2) _____  6) ईमेल आईडी Email ID _____</p>	
13	<p><b>सामग्री बैंक गारंटी:</b> चूंकि सामग्री एनआरएससी/इसरो की संपत्ति है, वारंटी अवधि के दौरान स्थापित परिसर के बाहर सामग्री या दोषपूर्ण भाग के परिवहन के मामले में, उपकरण के दोषपूर्ण भाग के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन या सामग्री बैंक गारंटी, दोषपूर्ण वस्तु/उपकरण का मूल्य प्रदान किया जाएगा ताकि हम उस वस्तु या दोषपूर्ण भागों को मरम्मत के लिए विक्रेता को सौंप सकें। सामग्री बैंक गारंटी उस प्रारूप के अनुसार प्रदान की जाएगी जिसे क्रय आदेश के साथ भेजा जाएगा।  <b>Material Bank Guarantee:</b> As the material is a property of NRSC/ISRO, in case of transporting the material or a defective part outside the installed premises during the Warranty period, a suitable replacement for the defective part of the equipment or Material Bank Guarantee towards the value of the defective item/ equipment shall be provided to enable us to hand over the item or defective parts to the vendor for repairs. Material Bank Guarantee shall be provided as per the format which shall be sent along with the purchase order.</p>	
14	<p><b>मध्यस्थता खंड:</b> सविदा की व्याख्या और आवेदन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद, मतभेद या दावे की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद या दावे का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा। संबंधित पक्षों के अच्छे व्यवहार के आपसी परामर्श और उनके आपसी हितों को पहचानकर दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसे विवाद/विवादों के अस्तित्व की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसा समाधान संभव नहीं है तो, समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से अनसुलझे विवाद/विवादों या मतभेदों या दावों को नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता बेंगलुरु में मध्यस्थता और सुलह केंद्र – बेंगलुरु (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) में इसके नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थता के लिए खर्च समान रूप से या मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार साझा किया जाएगा। मध्यस्थ का विचारित और लिखित निर्णय पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता के लिए लागू भाषा केवल "अंग्रेजी" होगी। सविदा के तहत कार्य <b>ठेकेदार</b> द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी रखा जाएगा, जब तक कि अन्यथा <b>विभाग</b> द्वारा लिखित रूप में निर्देशित न किया जाए या जब तक मामला ऐसा न हो कि कार्य नहीं किया जा सके। संभवतः तब तक जारी रहेगा जब तक मध्यस्थ का निर्णय (चाहे अंतिम या अंतरिम) प्राप्त न हो जाए।  <b>Arbitration Clause:</b> In the event of any dispute/s, difference/s or claim/s arising out of or relating to the interpretation and application of the Contract, such dispute/s or difference/s or claim/s shall be settled amicably by mutual consultations of the good Offices of the respective Parties and recognizing their mutual interests attempt to reach a solution satisfactory to both the parties. If such a resolution is not possible, within 30 days from the date of receipt of written notice of the existence of such dispute/s, then the unresolved dispute/s or difference/s or claim/s shall be referred to the Sole Arbitrator appointed by the Parties by mutual consent in accordance with the rules and procedures of Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time. The arbitration shall be conducted in Bengaluru in the Arbitration and Conciliation Centre – Bengaluru (Domestic and International) as per its rules and regulations. The expenses for the Arbitration shall be shared equally or as may be determined by the Arbitrator. The considered and written decision of the Arbitrator shall be final and binding between the Parties. The applicable language for Arbitration shall be "English" only. Work under the Contract shall be continued by the CONTRACTOR during the pendency of arbitration proceedings, without prejudice to a final adjustment in accordance with the decision of the Arbitrator unless otherwise directed in writing by the DEPARTMENT or unless the matter is</p>	

	<p>such that the works cannot be possibly continued until the decision (whether final or interim) of the Arbitrator is obtained.</p> <p><b>सीपीएसई के साथ निविदा के लिए मध्यस्थता खंड:</b> केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक संविदा के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद (इसके अलावा) कराधान मामलों से संबंधित) को का.ज्ञा संख्या 4(1)/2013-डीपीई (जीएम)/ एफटीएस-1835 में उल्लिखित "CPSEs विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (AMRCD)" के माध्यम से किसी भी पक्ष द्वारा समाधान के लिए उठाया जाएगा। भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा दिनांक 22-05-2018 और का.ज्ञा. संख्या डीपीई-जीएम-05/0003/2019-एफटीएस-10937 दिनांक 20.02.2020 जारी किया गया।</p> <p><b>Arbitration Clause for Contracts with CPSEs:</b> In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of commercial contract(s) between Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Government Departments/ Organizations, such disputes or differences (other than those related to taxation matters) shall be taken up by either party for resolution through the "Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD)" as mentioned in OM No. 4(1)/2013-DPE (GM)/FTS-1835 dated 22-05-2018 and OM No. DPE-GM-05/0003/2019-FTS-10937 dated 20.02.2020 issued by the Department of Public Enterprises(DPE) under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.</p>	
15	<p><b>लागू कानून खंड:</b> फलहाल लागू इस संविदा को भारत के कानून नियंत्रित करेंगे। संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मामले या विवाद पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार केवल तेलंगाना के न्यायालयों को होगा।</p> <p><b>Applicable Law Clause:</b> The laws of India shall govern this contract for the time being in force. The Courts of Telangana only shall have jurisdiction to be with and decide any legal matters or disputes what so ever arising out of the contract.</p>	
16	<p><b>अप्रत्याशित घटना की स्थिति:</b> ऐसी स्थिति में जब अप्रत्याशित घटना की स्थिति, जैसे महामारी, बाढ़, युद्ध, सरकारी नीतियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण संविदा के निष्पादन में देरी होती है या बाधा आती है, तो जिस पक्ष के संविदा का निष्पादन प्रभावित होता है। अप्रत्याशित घटना की स्थिति किसी भी मामले में निष्पादन प्रभावित होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अप्रत्याशित घटना की स्थिति के अस्तित्व के बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष संविदा की सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने या संविदा को कम समय में बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।</p> <p><b>Force Majeure Condition:</b> In the event that the performance of the contract is delayed or hampered due to Force Majeure Condition, such as Pandemic, Floods, War, Government Policies, Natural Calamities etc., the party whose performance of the contract is affected due to Force Majeure Condition shall notify the other party promptly about the existence of force majeure condition in any case within a period of sixty days from the date the performance is affected. Both the parties may in such a situation shall take necessary steps either for extension of the delivery period of the contract or short closure of the contract.</p>	
17	<p><b>जोखिम खरीद खंड:</b> यदि विक्रेता संविदा सबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो केंद्रों/इकाइयों के पास संबंधित विक्रेता के जोखिम और खर्च पर संविदा/खरीद को पूरा करने का विकल्प होगा। जहां भी जोखिम खरीद खंड लागू होता है, विक्रेता खरीद आदेश/संविदा के मूल्य के मुकाबले केंद्र/यूनिट द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्रेता के पास अपनी प्रक्रिया का पालन करके शेष कार्य को किसी अन्य विक्रेता के माध्यम से निष्पादित कराने का अधिकार सुरक्षित है।</p> <p><b>Risk Purchase Clause:</b> In case the vendor fail to fulfill the contractual obligations,</p>	

	<p>the Centres /Units shall have an option of completing the contract/ procurement at the risk and expense of the vendor concerned. Wherever the risk purchase clause is enforced, the vendor is liable to pay the additional amount if any spent by the Centre/Unit as against the value of the Purchase Order / Contract. The purchaser reserves the right to get the balance work executed through another vendor by following their own procedure.</p>	
18	<p><b>गोपनीयता:</b> आर्डर देने की स्थिति में, संबंधित विक्रेता नोट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति किए गए उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताएं और तकनीकी विशेषताएं गोपनीय रहेंगी और तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।</p> <p><b>Confidentiality:</b> In the event of placement of order, the respective vendor shall note and ensure that Technical Specifications and technical features of the equipment's supplied shall be confidential and shall not be disclosed to third party.</p>	
19	<p><b>गोपनीयता:</b> क्रेता द्वारा प्रदान की गई और संविदा का हिस्सा बनने वाली तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश और अन्य संबंधित दस्तावेज क्रेता की संपत्ति हैं और संविदा के निष्पादन को छोड़कर, किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग या खुलासा नहीं किया जाएगा। पेटेंट प्रदान करने और डिजाइनों के पंजीकरण की स्थिति में अधिकारों सहित सभी अधिकार क्रेता के पक्ष में सुरक्षित हैं। क्रेता द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को किसी अन्य रूप में या अन्यथा पूरी तरह से कॉपी, ट्रांसक्रिप्ट, टेस या पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और/या डुप्लिकेट, संशोधित, खुलासा और/या किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा। न ही इस संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर क्रेता की लिखित सहमति के बिना किसी भी अन्य रूप में दुरुपयोग किया गया। ये तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश और अन्य संबंधित दस्तावेज जो मूल रूप से क्रेता द्वारा प्रदान किए गए थे, उन्हें सहमत उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के तुरंत बाद सभी अनुमोदित प्रतियों और डुप्लिकेट, यदि कोई हो, के साथ क्रेता को वापस कर दिया जाएगा, और साथ में भेजा जाएगा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ठेकेदार का एक प्रमाण पत्र इस उल्लेख के साथ कि ऐसी तकनीकी जानकारी, चित्र आदि क्रेता को वापस कर दिए गए हैं और ठेकेदार ने उसकी कोई प्रति/कॉपी अपने पास नहीं रखी है।</p> <p><b>Secrecy:</b> The technical information, drawings, specifications and other related documents provided by the Purchaser and forming part of the Contract are the property of Purchaser and shall not be used or disclosed for any other purpose, except for execution of the Contract. All rights, including rights in the event of grant of patent and registration of designs are reserved in favor of the Purchaser. The technical information, drawings, specifications, records and other documents provided by the Purchaser shall not be copied, transcribed, traced or reproduced in any other form or otherwise in whole and/ or duplicated, modified, divulged and/or disclosed to a third party nor misused in any other form whatsoever without Purchaser's consent in writing except to the extent required for the execution of this Contract. These technical information, drawings, specifications and other related documents which were originally provided by the Purchaser shall be returned to the Purchaser with all approved copies and duplicates, if any, immediately after they have been used for the agreed purpose, and shall be accompanied with a certificate of the Contractor signed by an authorized signatory that such technical information, drawings, etc. have been returned to the Purchaser and that the Contractor has not retained any copy/copies thereof with him.</p>	
20	<p>बोलीदाता सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 और सार्वजनिक क्रय (मैक इन इंडिया की प्राथमिकता) आदेश 2017 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के समवर्ती आवेदन के लिए व्यय विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा. नंबर एफ 1/4/2021-पीपीडी दिनांक 18/05/2023 का भी संदर्भ ले सकते हैं। Bidders may also refer OM No. F1/4/2021-PPD dated 18/05/2023 issued by Department of Expenditure for concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference</p>	

	to Make in India) Order 2017	
21	प्रस्तावों पर विचार के लिए संलग्न प्रारूप में हस्ताक्षरित <b>बोलों-सुरक्षा घोषणा</b> प्रस्तुत करना अनिवार्य है। It is mandatory to submit signed <b><u>Bid-security declaration</u></b> in the enclosed format for consideration of offers.	
22	एनआरएससी बिना कोई कारण बताए बोलों/निवेदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। NRSC reserves the <b>right to reject the bid/tender</b> without assigning any reason thereof.	
23	<b>भूमि सीमा घोषणा:</b> निवेदा में भाग लेने वाले विक्रेताओं को भूमि सीमा खंड के लिए जेम (GeM) सामान्य नियम और शर्तों में नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। <b>उत्पत्ति के देश की घोषणा:</b> विक्रेताओं को प्रस्तावित वस्तुओं की उत्पत्ति के देश की घोषणा करनी चाहिए। <b>Land Border Declaration:</b> Vendors who participate in the tender shall comply with the terms and conditions in GeM General Terms and Conditions for land border clause. Country of Origin Declaration: Vendors should declare the country of Origin of goods offered.	
24	विक्रेता को संलग्न प्रारूप के अनुसार स्थानीय सामग्री का विवरण प्रस्तुत करना होगा। बिना ब्रेकअप के स्व-प्रमाणन पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। Vendor has to submit the break-up of the local content as per the attached format. Self-certification without breakup will not be considered for further evaluation.	
25	<b>"Down-time Clause during Warranty period:</b> During the warranty period, the vendor shall respond to the issue raised by NRSC within <b>48 hours</b> and rectify <b>within 10 days</b> from the date of intimation. In case of failure to rectify within the specified time period, downtime compensation of <b>0.5% of the defective item value</b> for every 24 hours of additional delay, will be levied with an <b>upper limit of 10%</b> of the order value.	

दिनांक सहित हस्ताक्षर      Signature with date:  
नाम                                      Name:  
पदनाम                                  Designation:  
आधिकारिक सील                  Official Seal:



**अनुलग्नक ANNEXURE-IV**

(लेटर हेड में मुद्रित किया जाना है to be printed in letter head)

**मेक इन इंडिया ऑर्डर सर्टिफिकेट के तहत स्व-प्रमाणन  
Self-Certification under preference to Make in India order**

**Certificate**

सरकारी सार्वजनिक क्रय आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी(बीई-II) दिनांक 16.09.2020 और इसके संशोधनों के अनुरूप, हम प्रमाणित करते हैं कि हम मेसर्स \_\_\_\_\_ क्लास-I/क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता अर्थात् \_\_\_\_\_, निविदा पूछताछ के अंतर्गत सामग्री के लिए उपरोक्त आदेशों में परिभाषित % निविदा पूछताछ संख्या .....दिनांक .....

In line with Government Public Procurement Order No. P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 16.09.2020 and its amendments, we hereby certify that we M/s \_\_\_\_\_ are Class-I/Class-II local supplier meeting the requirement of minimum local content i.e., \_\_\_% as defined in above orders for the material against Tender Enquiry Tender Enquiry No.....dated.....

जिस स्थान पर स्थानीय मूल्यवर्धन किया जाएगा उसका विवरण इस प्रकार है:।  
Details of location at which local value addition will be made as follows: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

तकनीकी प्रस्ताव/भाग-I बोली में इस प्रमाणीकरण के लिए अनुलग्नक के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं:

Following documents are to be submitted as Annexure to this certification in technical offer/ Part-I bid:

**i. स्थानीय घटक सूची Local Component list:**

क्र.सं Sl.no	घटकों का विवरण Description of components	कुल स्थानीय सामग्री में प्रतिशत Percentage in total Local content

यानी, वे वस्तुएँ और सेवाएँ जो निविदा के तहत प्रस्तावित सिस्टम/उपकरण/सेवा में आपूर्तिकर्ता द्वारा घरेलू स्तर पर खरीदी/उत्पादित की जा रही हैं। इस सूची में सभी घटक, कच्चे माल, उप सेवाएँ आदि शामिल होंगे।

i.e., Items and services which are being procured / produced domestically by supplier in the system / equipment / service offered against tender. This list shall include all the components, raw materials, sub services etc.

**ii. विदेशी/आयातित घटक सूची Foreign/ Imported Component list:**

क्र.सं Sl.no	घटकों का विवरण Description of components	कुल आयातित सामग्री में प्रतिशत Percentage in total Imported
-----------------	---	--

		content

यानी, वे वस्तुएं और सेवाएं जो निविदा के तहत प्रस्तावित सिस्टम/उपकरण/सेवा में भारत के बाहर से बोली लगाने वाले द्वारा आपूर्ति की जा रही हैं। इस सूची में सभी घटक, कच्चे माल उप सेवाएं आदि शामिल होंगे।

i.e., Items and services which are being supplied by bidder from outside India in the system / equipment / service offered against tender. This list shall include all the components, raw materials sub services etc.

**iii. स्थान(स्थानों) का विवरण जहां से विदेशी/आयातित घटकों की आपूर्ति की जा रही है, भी प्रदान किया गया है। कृपया ध्यान दें कि परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और बिक्री के बाद AMC/CMC आदि जैसी सेवाओं को स्थानीय मूल्यवर्धन के लिए नहीं माना जाएगा। Location(s) details from where foreign / imported components are being supplied also provided.**

Please Note that the services such as transportation, insurance, installation, commissioning, training and after sales support like AMC/CMC, etc shall not be considered for local value addition.

**घोषणा Declaration:**

हम यह भी समझते हैं, झूठी घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को नियम 151 के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। iii) सामान्य वित्तीय नियमों के साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हो सकती हैं।

We also understand, false declarations will be in breach of the code of integrity under rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151(iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

धन्यवाद Thanking You

दिनांक सहित हस्ताक्षर Signature with date:

नाम Name:

पदनाम Designation:

## बोली सुरक्षा घोषणा प्रपत्र Bid Security Declaration Form

(कंपनी के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई है  
On Company Letterhead signed and stamped by the authorized signatory)

दिनांक Date: \_\_\_\_\_  
टेंडर नं Tender No. \_\_\_\_\_

सेवा में/To  
प्रधान, क्रय एवं भण्डार Head, Purchase & Stores  
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र National Remote Sensing Centre  
हैदराबाद Hyderabad.

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

मैं/हम समझते हैं कि, आपकी शर्तों के अनुसार, बोलियों को बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी संविदा के लिए बोली लगाने से मुझे/हमें अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्योंकि मैं/हम

I/We. The undersigned, declare that:

I/We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration.

I/We accept that I/We may be disqualified from bidding for any contract with you *for a period of one year* from the date of notification if I am /We are in a breach of any obligation under the bid conditions, because I/We

a) ने मेरी/हमारी निविदा को वापस ले लिया है/संशोधित/संशोधित कर दिया है, उसे कमजोर कर दिया है या उसका अवमूल्यन कर दिया है, बोली के प्रपत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान बोली; या have withdrawn/modified/amended, impairs or derogates from the tender, my/our Bid during the period of bid validity specified in the form of Bid; or

b) बोली वैधता की अवधि के दौरान क्रेता द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया है having been notified of the acceptance of our Bid by the purchaser during the period of bid validity

(i) यदि आवश्यक हो तो संविदा को निष्पादित करने में विफल या पुनः उपयोग करें, या (ii) बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहें या इनकार करें।

(i) fail or reuse to execute the contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders.

मैं/हम समझते हैं कि यदि मैं/हम सफल बोलीदाता नहीं हैं, तो (i) सफल बोलीदाता के नाम की आपकी अधिसूचना प्राप्त होने पर यह बोली सुरक्षा घोषणा मान्य नहीं रहेगी; या (ii) मेरी/हमारी बोली की वैधता समाप्त होने के तीस दिन बाद

I/We understand this Bid Securing Declaration shall cease to be valid if I am/we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) the receipt of your notification of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of my/our Bid.

हस्ताक्षरित: (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिखें जिसका नाम और पद दर्शाया गया है)

Signed: (insert signature of person whose name and capacity are shown)

की क्षमता में (बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की कानूनी पद डालें)

in the capacity of (insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration)

नाम: (बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम डालें)

की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत (बोलीदाता का पूरा नाम डालें)

दिनांक \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर करने की तारीख डालें)

Name: (insert complete name of person signing the Bid Securing Declaration)

Duly authorized to sign the bid for an on behalf of (insert complete name of Bidder)

Dated on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (insert date of signing)

कॉर्पोरेट सील (जहां उपयुक्त हो)

Corporate Seal (where appropriate)

(नोट: संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा बोली प्रस्तुत करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए)

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint venture that submits the bid)